




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 109]
No. 109]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1999/पौष 3, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1999/PAUSA 3, 1921

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1999

एम.सी.आई.-35(1)/99-मेडि.—आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक के वार्षिक 50 प्रवेश के लिए न्यूनतम अपेक्षा विनियम, 1999 (भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4, असाधारण संस्करण दिनांक 29-4-1999 को प्रकाशित) संबंधी शुद्धि पत्र।

पृष्ठ-13

पंक्ति-12

अस्थिरोग विज्ञान विभाग में लिखे शब्द तथा अंक "3. प्राध्यापक—1" के स्थान पर शब्द तथा अंक को "3. प्राध्यापक—2" पढ़ें।

डॉ. एम. सचदेवा, सचिव

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th December, 1999

M.C.I.-35(1)/99-Med.—Corrigendum to the Minimum Standard Requirements for 50 admissions annually Regulations (Published in the Gazette of India Part III, Section 4, Extraordinary issue dated 29-4-1999).

Page 58

Line 32

under Department of Orthopaedics for the word and figures "3. Lecturer—1" Read the word and figures "3 Lecturer—2"

DR. M. SACHDEVA, Secy.

3733 GI/99

